

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - ~~1707(313)~~ सिकहरना, ढाका, दिनांक-16/12/2022

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।



विषय :- M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
16/12/22  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।  
  
16/12/22

**Rural Works Department**  
**Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**  
**Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka**

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount Allotted (in Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition done against work (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/EA/SIK/22/0003	Bagchi Bhelwa Bankaiva Path to Champapur Sapaha Dakshin, Ward No.-3 (Yadav tola)	31708612031	2090/06.05.2022	2.720	155.07000	119.10119	36.81416	16 MBD-09.12.2022	08.09.2023		2512.75	25	5	0.00	0.00	119.09162	
Total :-																		
															0.00	0.00	119.09162	

प्रमाणित किया जाता है कि पृष्ठ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कर्मीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

Divisional Accounts Officer  
Rural Works Div, Dhaka

Executive Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka  
16.12.22



**FORM GFR 19-A**


(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)  
**Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....**

**MR-3054 (New Maintenance Policy)**

**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. .... Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. .... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. .... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

  
**Divisional Account Officer**


**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
**Executive Engineer**

**R.W.D.(W) Div., Dhaka**

Name of Contractor:- Vijayee Champaran Construction PVT. LTD.  
 Name of Road:- Baghi Bhehwa Bankatwa Path to Champapur Sapaha Dakshin, Ward no 3 (Yadav tola)

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
14/12/22	17:16:25	25	0.1	270	20.2	4000	3512 G		26.796385	85.070839	Normal
14/12/22	17:16:25	25	0.1	270	20.2	3800	3349 G		26.796532	85.069713	Normal
14/12/22	17:17:0	25	0.1	190	30.3	4100	3594 G		26.796722	85.068678	Normal
14/12/22	17:17:0	25	0.1	260	20.2	4300	3757 G		29.796939	85.068082	Normal
14/12/22	17:17:35	25	0.1	220	10.1	2200	2044 G		26.797171	85.066727	Normal
14/12/22	17:17:35	25	0.1	150	30.3	1500	1472 G		26.796403	85.066093	Normal
14/12/22	17:18:9	25	0.1	240	10.1	2400	2207 G		26.795732	85.06574	Curve
14/12/22	17:18:9	25	0.1	230	20.2	2300	2125 G		26.794894	85.06574	Normal
14/12/22	17:18:9	25	0.1	200	10.1	2000	1880 G		26.794179	85.065863	Normal
14/12/22	17:19:0	25	0.1	190	20.2	4000	3512 G		26.793716	85.064877	Normal
14/12/22	17:19:20	25	0.1	340	10.1	4500	3920 G		26.793916	85.063998	Speed Breaker
14/12/22	17:20:0	25	0.1	310	10.1	4400	3839 G		26.794271	85.06311	Normal
14/12/22	17:20:0	25	0.1	250	20.2	2500	2288 G		26.7945	85.062207	Normal
14/12/22	17:20:30	25	0.1	190	30.3	1900	1799 G		26.79367	85.061837	Normal
14/12/22	17:20:30	25	0.1	150	10.1	1500	1472 G		26.792743	85.060994	Normal
14/12/22	17:21:6	25	0.1	240	10.1	2400	2207 G		26.791673	85.060351	Curve
14/12/22	17:21:41	25	0.1	220	10.1	2200	2044 G		26.791256	85.060022	Normal
14/12/22	17:22:0	25	0.1	270	20.2	2700	2452 G		26.790468	85.060111	Normal
14/12/22	17:22:16	25	0.1	250	20.2	2500	2288 G		26.789767	85.060836	Normal
14/12/22	17:22:16	25	0.1	320	20.2	3200	2860 G		26.789223	85.061698	Curve
14/12/22	17:22:16	25	0.1	230	20.2	2300	2125 G		26.78845	85.061512	Normal
14/12/22	17:23:0	25	0.1	220	10.1	2200	2044 G		26.787698	85.060872	Normal
14/12/22	17:24:0	25	0.1	180	10.1	2600	2370 G		26.78691	85.060779	Speed Breaker
14/12/22	17:24:2	25	0.1	300	10.1	3000	2696 G		26.786568	85.061792	Normal
14/12/22	17:36:0	25	0.1	200	10.1	2000	1880 G		26.786432	85.062719	Normal
14/12/22	17:36:17	25	0.1	270	10.1	2700	2452 G		26.786218	85.063835	Normal
14/12/22	17:40:36	25	0.1	190	20.2	1900	1799 G		26.786295	85.063415	Normal
14/12/22	17:42:16	25	0.02	170	10.1	2600	2370 G		26.785791	85.063383	Normal
Total Length			2.720	Total IRI			70357				
				Avrg. IRI			2512.75				

Handwritten

14/12/22

Subender AKY  
 14-12-22  
 J.E

Accepted  
 14.12.22  
 (E.E.)



Name of Customer : Harvee Chancesan Const. PVT  
 Name of Work : Bughi Bhelwa Bankawa path to  
 Road : 25  
 Lab Job number : 25  
 Date : 12/14/2022  
 Section No. : 25


Print Generate Report and Graph

Test Date : 12/14/2022 Road Name : Dakshin ward no 3 (Vadav'ola)  
 Machine No : 378 Road Type : (A) ASPHALTIC  
 Start S No :        Side :        Interval :         
 Start E No :        UIV Range : 472 To 4000 1000 mm/km  
 Weather :        Dist Range : 50 To 500 1002 \* 1000 m  
 Start Location :        Equation : Test  
 End Location :       

Redraw Graph

Map View

File E:\Report bump dhaka\11031123.Xls. Section No. 25. Egn Test  
 Name of Customer : Vijayar Champaran Const. PVT. LTD. Name of Work : Road Bughi Bhelwa Bankawa path to



Subendryakr  
 14.12.22  
 J-E

~~Handed~~  
 14.12.22  
 EE  
 //